



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (श10)

(सं0 पटना 654) पटना, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त 2011

सं0 22/नि0सि0(दर0)-16-08/2010/1029—श्री रामजी राम, कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितता, बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, उनकी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण सी0 डी0 संरचना का क्षतिग्रस्त होना इत्यादि कतिपय प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामजी राम, कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री राम का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, गया निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह-भत्ता देय होगा।

4. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 654-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>